

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
संख्या-758/xxxi(15)G/20-41(सा0)/2018
देहरादून: दिनांक 28 नवम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार 2019-2020 के सन्दर्भ में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनोंक 13 अगस्त, 2020 के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार हेतु गठित विशेषज्ञ समिति को आवेदकों द्वारा उनके आवेदनों में उल्लिखित कार्यों पर प्रस्तुतीकरण दिनोंक 07 दिसम्बर, 2020, 08 दिसम्बर, 2020 एवं 09 दिसम्बर, 2020 को ऑनलाईन जूम मीट (Zoom Meet) के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया गया हैं। कृपया संलग्न सूची में उल्लिखित तिथियों एवं समय के अनुसार अपने आवेदनों में उल्लिखित कार्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण करने का कष्ट करें। जूम मीट (Zoom Meet) की लिंक/आई-डी एवं पासवर्ड पृथक से प्रेषित कर दी जायेगी। आप वेबसाईट www.uk.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

संलग्नक: आवेदकों की सूची।

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय),
सचिव (प्रभारी)।

संख्या : 758/XXXI(15)G/2020/41(सा0)/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य।
2. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रस्तुतीकरण हेतु सम्बन्धित तक सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त प्रमुख समाचार पत्रों एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को उत्तराखण्ड सरकार की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. समस्त आवेदकगण।
5. गार्ड फाईल।

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय),
सचिव (प्रभारी)।